

कक्षा -3

पाठ - 11 [मीरा बहन और बाघ]

कठिन शब्द

1. जन्म
2. इंग्लैंड
3. विचारों
4. आजादी
5. आश्रम
6. स्थापना
7. देखभाल
8. गेंवली
9. खतरनाक
10. अक्सर
11. शिकार
12. तलाश
13. जानवरों
14. पिंजड़ा

15. मिमियाना
16. मालूम
17. योजना
18. रोशनी
19. आखिर
20. धोखा

लिंग बदलो

1. भाई -बहन
2. माता-पिता
3. गाय-बैल
4. बकरी -बकरा

वचन बदलो

1. गाँव -गाँवो
2. पशु -पशुओं
3. जानवर-जानवरों
4. दरवाजा -दरवाजे

विपरीतार्थक शब्द

1. दूर -नजदीक
2. डर-निडर
3. शाम -सुबह
4. कैद -आजाद
5. बंद -खुला
6. रोशनी -अंधेरा
7. खुशी -दुःख

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1.मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ ?

उत्तर -मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ !

प्रश्न 2.मीरा बहन ने किस गाँव में आश्रम की स्थापना की ?

उत्तर -मीरा बहन ने गेंवली गाँव में आश्रम की स्थापना की !

प्रश्न 3.मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की ?

उत्तर -मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की!

प्रश्न 4.पहाड़ी गाँवों में किस जानवर का भय बना रहता था ?

उत्तर -पहाड़ी गाँवों में अक्सर बाघ का भय बना रहता था !

प्रश्न 5.गाँव के लोगो ने बाघ को पकड़ने की क्या युक्ति बनाई ?

उत्तर -गाँव के लोगो ने बाघ को कैद करने के लिए एक पिंजड़ा बनाया और पिंजड़े में एक बकरी बांधी ताकि बकरी की आवाज सुनकर बाघ अंदर आए और पिंजड़े में फँस जाए!

प्रश्न 6.बिना बाघ के अंदर गए पिंजड़े का दरवाजा कैसे बंद हो गया ?

उत्तर -मीरा बहन ने बिना बाघ के अंदर आए ही पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया !

क्यों ?और कैसे ?

प्रश्न [क] बाघ की खबर पूरे गाँव में फैल गई कैसे ?

उत्तर -बाघ ने गाँव में घुसकर एक गाय को मार डाला ,इसीलिए बाघ की खबर पूरे गाँव में फैल गई !

प्रश्न [ख] लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों ?

उत्तर -गाँव के लोग मीरा बहन से मिले ताकि वे बाघ को पकड़ने की कोई योजना बना सके !

प्रश्न [ग] पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे ?

उत्तर -बिना बाघ के अंदर गए पिंजड़ा बंद हो ज़ क्योंकि पिंजड़ा मीरा बहन ने बंद किया था !